

Growing up **2030** in a digital world

GOVERNING HEALTH FUTURES
THE LANCET & FINANCIAL TIMES COMMISSION


द लैंसेट और फाइनेंशियल टाइम्स आयोग के बारे में

कई विस्तृत क्षेत्रों, विशेषज्ञता, और पृष्ठभूमि के आयुक्त अपने मार्गदर्शन, बौद्धिक आगत और विचारों द्वारा एक रिपोर्ट *गवर्निंग हेल्थ फ्यूचर्स 2030: में योगदान दे रहे हैं एक डिजिटल दुनिया में बड़ा होना* (जीएचफ्यूचर्स 2030)। यह रिपोर्ट 2021 में द लैंसेट में प्रकाशित की जाएगी और विशेष रूप से आज के बच्चों व युवाओं पर तथा आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, तीसरे सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य की समाभिरूपता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के साथ अन्य सीमांत प्रौद्योगिकियों के अभिसरण का पता लगाएंगी।

अधिक जानें:

www.governinghealthfutures2030.org


जी एच फ्यूचर्स 2030 यूथ नेटवर्क



डिजिटल प्रौद्योगिकियां और डेटा वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल रहे हैं, और आज डिजिटल दुनिया में— बड़ा होना — यह बीस, दस, और यहां तक कि पांच वर्ष पहले की तुलना में बहुत अलग दिखता है। पहले से कहीं अधिक, कोविड-19 ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल परिवर्तन के कारण हुई गति में वृद्धि का युवाओं पर अनुपातहीन रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और यह भी कि वे गवर्निंग हेल्थ फ्यूचर्स पर वैश्विक और स्थानीय चर्चाओं में बदलाव लाने के प्रमुख अभिकर्ता हैं।

2021 में, द लैंसेट और फाइनेंशियल टाइम्स आयोग *गवर्निंग हेल्थ फ्यूचर्स 2030: एक डिजिटल दुनिया में बड़ा होना* ने जीएचफ्यूचर्स 2030 युवा नेटवर्क को भविष्य के अनुसंधान, पक्षसमर्थन और रिपोर्ट के प्रसार के सह-निर्माण और सह-नेतृत्व के लिए एक मंच के रूप में प्रारंभ किया।

यह नेटवर्क 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को, युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश करने और स्वास्थ्य शासन के भविष्य में निवेश करने के लिए साथ लाएगा जायेगा, जिसे आज आकार दिया जा रहा है। नेटवर्क का उद्देश्य बच्चों और युवाओं की आवश्यकताओं से प्रेरित एक डिजिटल स्वास्थ्य अभिशासन के लिए समर्पित आंदोलन का निर्माण करना है, जो संवादों, घटनाओं और कार्यों को उत्पन्न करे, जो युवाओं के लिए हों और उनके साथ सह-डिज़ाइन किए गए हों और सह-नियंत्रित हों हैं।





युवा टीम

आयोग सचिवालय की यूथ युवा टीम को 2020 में आयोग के काम को बढ़ाने और हेल्थ फ्यूचर्स को नियंत्रित करने के लिए युवाओं को सीधे कार्रवाई और संवाद में सम्मिलित करने हेतु बनाया गया था।

युवा टीम का लक्ष्य है:

- वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर आयुक्तों और युवा लोगों के बीच एक परामर्शक प्रक्रिया को संचालित करना ताकि रिपोर्ट की सिफारिशों पर पीढ़ीओं तक कार्रवाई और स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- गवर्निंग हेल्थ फ्यूचर्स पर भविष्य के अनुसंधान और संवाद की रूपरेखा तैयार करना
- आयोग की रिपोर्ट के उन पहलुओं पर ध्यान देना जो युवाओं के लिए विशेष रुचि रखते हैं।

कैसे शामिल हों

हमारा लक्ष्य एक ऐसे नेटवर्क का है जो विविध और बहु-विषयक हो, क्योंकि हम युवा लोगों का विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि भौगोलिक और क्षेत्रों से परे भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकें हैं। शामिल होने के लिए, कृपया इस संक्षिप्त [one-minute google form](#) को पूरा करें।

किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया संपर्क करें
youth.ghfutures2030@graduateinstitute.ch



मुख्य उद्देश्य

जीएचएफ्यूचर्स 2030 युवा नेटवर्क चाहता है:

- **युवाओं के साथ काम करना** स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और डेटा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन में युवाओं की अधिक भागीदारी का पक्ष-समर्थन तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों और विषयों में काम करना
- **आयोग के निष्कर्षों का पक्ष-समर्थन और प्रसार का समर्थन करना** जो समावेश, लोकतंत्र, एकजुटता, साम्य और मानवाधिकारों पर साझा की गई मान्यताओं से चालित है।
- **निर्णय निर्माताओं को जवाबदेह ठहराएं** स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं तथा प्रौद्योगिकी और डेटा के न्यायसंगत तथा उत्तरदायी उपयोग के लिए
- **सहयोग करना** हेल्थ फ्यूचर्स को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने के लिए नीति परिवर्तन में लगे अन्य नेटवर्कों के साथ
- **युवाओं की आवाज बुलंद करना** और इस नेटवर्क के सदस्यों को डिजिटल दुनिया में गवर्निंग हेल्थ फ्यूचर्स से संबंधित भविष्य के अनुसंधान, पक्ष-समर्थन और प्रसार गतिविधियों के सह-निर्माण और सह-नेतृत्व करने के लिए सलाह देना।

